



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2016 (ज्येष्ठ 21, 1938)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2016 (JYAISTHA 21, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	613	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	487	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1453	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 635
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 91
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 631
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	613	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	487	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1453	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	635
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	91
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	631
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2016

संकल्प

सं. ई. 11015(4)/2014—हिंदी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87—रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87—रा.भा.(क-2) दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में तथा अपने दिनांक 30 अगस्त, 2013, 10 सितम्बर, 2013 एवं 31 अक्टूबर, 2013 के संकल्प सं. ई. 11015/3/2013—हिंदी का अतिक्रमण करते हुए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है। इस पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे :

I. गठन

1. इस्पात और खान मंत्री अध्यक्ष
2. इस्पात और खान राज्य मंत्री उपाध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य

1.	श्री दलपत सिंह परस्ते, संसद सदस्य (लोक सभा) 2, पं. पन्त मार्ग, नई दिल्ली—110001	सदस्य
2	श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) 31, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली— 110001	सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य

3.	श्री लालसिंह वडोदिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) सी-301, स्वर्ण जयन्ती सदन, डा. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली— 110001	सदस्य
4.	श्री नरेश गुजराल, संसद सदस्य (राज्य सभा) 65, लोधी स्टेट, नई दिल्ली	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5.	श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य (लोक सभा) 11-ए, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
6.	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा) 302, नर्मदा अपार्टमेंट, डा. बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि

7.	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, डी-2/2205, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	सदस्य
8.	डॉ. बंडोपंत पाटील, यशवंत, 77 ए, निर्मिति विहार, बिजापुर रोड, सोलापुर- 413004 (महाराष्ट्र)	सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9.	सुश्री क्रांति कनाटे 203, टॉवर-3, साईनाथ स्क्वेयर, मदर्स स्कूल के पीछे, जलाराम चौकड़ी, बड़ौदा - 390021	सदस्य
10.	प्रो. (डॉ.) त्रिभुवन नाथ शुक्ल, 56, अशोक नगर, अधरताल, जबलपुर -482002	सदस्य
11.	डॉ. श्रीराम परिहार आजादनगर, खण्डवा (म.प्र.) 450001	सदस्य
12.	डॉ. विकास दवे, 3, वी.आय.पी. धनश्री नगर, इन्दौर- 452009 (म.प्र.)	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13.	श्री पुनीत प्रधान, म.नं. 225, सेक्टर-2, गंगयाल, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	सदस्य
14.	श्री चन्द्रकान्त जोशी, 407, कावेरी बिल्डिंग, ओशिवरा पुलिस स्टेशन के पास, ओशिवरा, अंधेरी (प), मुम्बई-400102	सदस्य
15.	श्री प्रभात वर्मा, सी-1/182, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सदस्य

सरकारी सदस्य

16. सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय
17. सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य
सदस्य

18. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
20. अध्यक्ष, स्टील अँथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
21. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य
22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेकॉन लिमिटेड, रांची (झारखंड)	सदस्य
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर	सदस्य
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र) विशाखापट्टनम	सदस्य
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
28. प्रबंध निदेशक, फैंरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई	सदस्य
29. संयुक्त सचिव (राजभाषा के प्रभारी), इस्पात मंत्रालय	सदस्य—सचिव

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्य-अवधि

- (1) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
- (2) समिति के कार्य-काल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (3) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
- (4) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (5) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

V. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/04/2005—रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/04/86—रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

टी. श्रीनिवास
संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
नई दिल्ली-110016, दिनांक 2 मई 2016
संकल्प

सं. ई-11018/1/2014-रा.भा.—भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, उनके कार्य आदि इस प्रकार होंगे:—

1. गठन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री	अध्यक्ष
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर सरकारी सदस्य	
- संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य (4 संसद सदस्य)
 1. श्री कंवर सिंह तवर (लोक सभा) सदस्य
 2. श्री शैलेश कुमार (लोक सभा) सदस्य
 3. डा. प्रभाकर कोरे (राज्य सभा) सदस्य
 4. श्री वीर सिंह (राज्य सभा) सदस्य
- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य (2 संसद सदस्य)
 5. श्री गोकाराजू गंगाराजू (लोक सभा) सदस्य
 6. डॉ. ए. संपत (लोक सभा) सदस्य
- केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित (1 सदस्य)
 7. श्रीमती सरोज शर्मा सदस्य
- राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित (1 सदस्य)
 8. डॉ. शिवशंकर मिश्र सदस्य
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित (4 सदस्य)
 9. श्री महेश चन्द्र शर्मा सदस्य
 10. श्री गजेन्द्र सोलंकी सदस्य
 11. श्री रवि शर्मा सदस्य
 12. सुश्री ऋतु गोयल सदस्य
- राजभाषा विभाग द्वारा नामित (3 सदस्य)
 13. श्री सिकन्दर यादव सदस्य
 14. श्री अरविंद कुमार सिंह सदस्य
 15. डॉ. उमा गंगाधर सदस्य
- सरकारी सदस्य
 16. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
 17. सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
 18. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सदस्य
 19. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
 20. सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक, सी एस आई आर सदस्य
 21. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य

22. वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
23. वित्तीय सलाहकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	सदस्य
24. वित्तीय सलाहकार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं सी एस आई आर	सदस्य
25. संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	सदस्य
26. संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
27. संयुक्त सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं सी एस आई आर	सदस्य
28. भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	सदस्य
29. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
30. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता	सदस्य
31. प्रबंध निदेशक, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली	सदस्य
32. प्रबंध निदेशक, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद	सदस्य
33. निदेशक, एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना निदेशालय, चैन्नई	सदस्य
34. निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, (सीएमएलआरई) कोच्चि	सदस्य
35. निदेशक, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, केन्द्र, नोएडा	सदस्य
36. संयुक्त सचिव (राजभाषा) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य — सचिव

II. समिति के कार्य

समिति का कार्य संबंधित विभागों को संविधान में राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के मामले में सलाह देना होगा।

III. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष का होगा :—

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
- (ख) तीन वर्ष की अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले व्यक्ति से भरा जाएगा और ऐसा व्यक्ति समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।
- (ग) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

V. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा. भा. (क.2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

बी.एस. रावत
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 27th May 2016

RESOLUTION

No. E. 11015(4)/2014-Hindi—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988 and O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 04-05-1989 and in supersession of its Resolution No. E.11015/3/2013-Hindi dated 30th August, 2013, 10th September, 2013 and 31st October, 2013 Ministry of Steel, Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel. The composition, functions etc. of the reconstituted Samiti will be as given hereunder:

I COMPOSITION

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Minister of Steel and Mines | Chairman |
| 2. | Minister of State for Steel and Mines | Vice-Chairman |

NON-OFFICIAL MEMBERS

Two members of Parliament (Lok Shabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

1	Shri Dalpat Singh Paraste Member of Parliament (Lok Sabha) 2, Pt. Pant Marg, New Delhi-110001	Member
2	Shri Santokh Singh Chaudhary, Member of Parliament (Lok Sabha) 31, Firozeshah Road, New Delhi-110001	Member

Two members of Parliament (Rajya Shabha) nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

3	Shri Lal Singh Vadodia Member of Parliament (Rajya Sabha) C-301, Swarna Jayanti Sadan, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001	Member
4	Shri Naresh Gujral, Member of Parliament (Rajya Sabha) 65, Lodhi Estate, New Delhi	Member

Two members of Parliament from Parliamentary Committee on Official Language

5	Smt. Ranjeet Ranjan Member of Parliament (Lok Sabha) 11-A, Balawant Rai Mehta Lane, Kasturaba Gandhi Marg, New Delhi-110001	Member
6	Dr. Mahendra Nath Pandey Member of Parliament (Lok Sabha) 302, Narmda Apartment, Dr.B.D. Marg, New Delhi-110001	Member

Representatives of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad and All India Hindi Institute

7	Shri Gopal Krishan Farliya, D-2/2205, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	Member
8	Dr. Bandopant Patil, Yashwant, 77 A, Nirmiti Vihar, Bizapur Road, Solapur-413004 (Maharashtra)	Member

Members nominated by the Ministry

9	Ms. Kranti Kanate 203, Tower-3, Sainath Square, Opp. Madras School, Jalaram Choukadhi, Baroda -390021	Member
10	Professor (Dr.) Tribhuwannath Shukla 56, Ashok Nagar, Adhartal, Jabalpur-482004	Member
11	Dr. Shriram Parihar, Azadnagar, Khandwa (M.P.) 450001	Member
12	Dr. Vikash Dave, 3, V.I.P. Dhanshri Nagar, Indore-452009 (M.P.)	Member

Representatives nominated by Official Language Department

13	Shri Puneet Pradhan, House No. 225, Sector-2, Gangyal, Jammu (J &K)	Member
14	Shri Chandrakant Joshi, 407, Kavari Building, Near Oshiwara Police Station, Oshiwara Andheri (W), Mumbai-400102	Member
15	Shri Prabhat Verma, C-1/182, Sector-G, Janakipuram, Lucknow (U.P.)	Member

OFFICIAL MEMBERS

16.	Secretary (Steel) Ministry of Steel	Member
17.	Secretary, Department of Official Language	Member
18.	Additional Secretary & F.A. Ministry of Steel	Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
20.	Chairman, SAIL, New Delhi	Member
21.	Chairman-cum-Managing Director, NMDC Limited., Hyderabad	Member
22.	Chairman-cum-Managing Director, MECON Limited, Ranchi (Jharkhand)	Member
23.	Chairman-cum-Managing Director, MOIL, Nagpur	Member
24.	Chairman-cum-Managing Director, KIOCL, Bangalore	Member
25.	Chairman-cum-Managing Director, Rastriya Ispat Nigam Ltd. (Visakhapatnam Steel Plant) Visakhapatnam	Member

26.	Chairman-cum-Managing Director, MSTC Limited, Kolkata	Member
27.	Chairman-cum-Managing Director, HSCL, Kolkata	Member
28.	Managing Director, FSNL, Bhilai	Member
29.	Joint Secretary, (Incharge of Official Language) Ministry of Steel	Member-Secretary

II FUNCTIONS

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Languages Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

III TENURE

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.
2. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.
3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
4. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
5. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

IV GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

V T.A. AND OTHER ALLOWANCES

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.
- (b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti, will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel, all State Governments and Union Territory Administrations, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India; Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be Published in the Gazette of India for General information.

T. SRINIVAS
Joint Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 2nd May 2016

RESOLUTION

No. E – 11018/1/2014–O.L.—The Government of India have decided to constitute the Joint Hindi Advisory Committee for the Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Science. The Composition of the Committee and it's functions shall be as under:-

I Composition

Minister of Science and Technology and Earth Sciences	Chairman
Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences	Vice-Chairman

Non - official members

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs (4 members)

1. Shri Kanwar Singh Tanwar (Lok Sabha)	Member
2. Shri Shailesh Kumar (Lok Sabha)	Member
3. Dr. Prabhakar Kore (Rajya Sabha)	Member
4. Shri Veer Singh (Rajya Sabha)	Member

Members of Parliament nominated by Parliamentary Committee on Official Language (2 members)

5. Shri Gokaraju Gangaraju (Lok Sabha)	Member
6. Dr. A. Sampat (Lok Sabha)	Member

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad (1 member)

7. Smt. Saroj Sharma	Member
----------------------	--------

Nominated by Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha (1 Member)

8. Dr. Shivshankar Mishra	Member
---------------------------	--------

Nominated by the Ministry of Science & Technology (4 Members)

9. Sh. Mahesh Chandra Sharma	Member
10. Sh. Gajendra Solanki	Member
11. Sh. Ravi Sharma	Member
12. Ms. Ritu Goyal	Member

Nominated by the Department of Official Language (3 Members)

13. Sh. Sikander Yadav	Member
14. Sh. Arbind Kumar Singh	Member
15. Dr. Uma Gangadhar	Member

Official Members

16. Secretary, Department of Science & Technology	Member
17. Secretary, Deptt. of Official Language	Member
18. Secretary, Ministry of Earth Sciences	Member
19. Secretary, Deptt. Of Biotechnology	Member
20. Secretary, Deptt. Of Scientific & Industrial Research	Member

21. Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
22. Financial Advisor, Deptt. of Science & Technology	Member
23. Financial Advisor, Ministry of Earth Sciences	Member
24. Financial Advisor, Deptt. of Scientific & Industrial Research	Member
25. Financial Advisor, Council for Scientific & Industrial Research	Member
26. Joint Secretary, Ministry of Earth Sciences	Member
27. Joint Secretary, Deptt. of Biotechnology	Member
28. Joint Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research	Member
29. Joint Secretary, Council for Scientific & Industrial Research	Member
30. Surveyor General of India, Survey of India, Dehradun	Member
31. Director General, India Meteorology Deptt. New Delhi	Member
32. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata	Member
33. Managing Director, National Research Development Corporation, New Delhi	Member
34. Managing Director, Central Electronics Ltd., Sahibabad	Member
35. Director, The Integrated Coastal and Marine Area Management Directorate, Chennai	Member
36. Director, Centre for Marine Living Resources and Ecology (CMLRE), Kochi	Member
37. Director, National Centre for Medium Range Weather Forecasting, Noida	Member
38. Joint Secretary (Official Language), Deptt. of Science & Technology	Member - Secretary

II Functions of the Committee

The functions of the Committee will be to advise the concerned Departments in matters relating to the provisions of the Official Languages enshrined in the Constitution, decisions of Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Department of the Official Language, Ministry of Home Affairs for the progressive use of Hindi in official work.

III Tenure

The tenure of members of the committee will ordinarily be three years from the date of its composition, provided that:-

- (A) A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament,
- (B) Any mid – term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.
- (C) In special circumstances the tenure of the Committee may be prolonged/ cut short by the Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences.

IV General

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other place also, if so required.

V Travelling and other allowances

The non – official members of the Committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M. No. 11/20034/4/86 – O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Planning Commission, All Ministries and Departments of the Government of India. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAWAT
Joint Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in